



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{4} - \frac{1}{8} =$$

$$\frac{7}{3} - \frac{3}{4} =$$

$$\frac{7}{2} - \frac{4}{3} =$$

$$\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =$$

$$\frac{4}{6} - \frac{1}{9} =$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{6} =$$

$$\frac{5}{2} - \frac{2}{8} =$$

$$\frac{6}{7} - \frac{7}{9} =$$

$$\frac{5}{9} - \frac{1}{9} =$$

$$\frac{7}{5} - \frac{1}{4} =$$



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{5}{4} - \frac{1}{8} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$$

$$\frac{7}{3} - \frac{3}{4} = \frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$$

$$\frac{7}{2} - \frac{4}{3} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{2}{5} = \frac{16}{35}$$

$$\frac{4}{6} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{5}{2} - \frac{2}{8} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{7}{9} = \frac{5}{63}$$

$$\frac{5}{9} - \frac{1}{9} = \frac{4}{9}$$

$$\frac{7}{5} - \frac{1}{4} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$$